

## संजौली कॉलेज में नव-आगंतुकों के लिए परिचय सत्र आयोजित: "नशे से खुद को बचाएं छात्र" - डॉ मेहता



आज दिनांक 08 जुलाई 2019 को राजधानी शिमला स्थित उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में नए प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों के लिए 'स्वागत कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। खचाखच भरे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीसीए और बीवोक संकाय के प्रथम वर्ष के लगभग एक हज़ार छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परिचय सत्र में महाविद्यालय के लगभग 85 शिक्षक व प्रशासनिक कर्मचारियों से विद्यार्थियों का औपचारिक संवाद करवाया गया। अपने संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ चंद्र भान मेहता ने जहां एक ओर विद्यार्थियों को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी, वहीं जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुशासन और मेहनत के साथ साथ सही निर्णय लेने की कला विकसित करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज में पनप रही नशे जैसी बुराइयों से खुद को बचाने की नसीहत देते हुए कहा कि छात्र ये कभी ना भूले कि एक गलत निर्णय आपके अपने व अपनों के भविष्य को अंधकारमय बना सकता है, वहीं आपका सही निर्णय आपके ही नहीं बल्कि सारे समाज के भविष्य को संवार सकता है। डॉ मेहता ने कहा, "यदि विद्यार्थी अनुशासित होकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो उत्कृष्ट महाविद्यालय आपके सुखद व समृद्ध भविष्य के निर्माण की गारंटी देता है।" इससे पहले डॉ आर एल शर्मा ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा पद्धति के अंतर्गत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में विद्यार्थियों को विस्तारपूर्वक समझाया। महाविद्यालय की समृद्ध परंपरा के अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव-आगंतुकों को महाविद्यालय के नीति-नियमों से अवगत करवाने के अलावा शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच एक प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर शिक्षार्जन की प्रक्रिया को उत्कृष्टतम स्तर तक ले जाना है।

**प्रैस सचिव**

**संदेश काल्टा**